

Canara Bank E-AUCTION SALE NOTICE. Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Last date of receipt of EMD: 28.09.2020 upto 5:00PM.

Table with 6 columns: Sr. No., Name & Address of Borrowers/Guarantors, Brief Description of Property, Total Liabilities, Reserve Price, Person to contact. Includes details for M/S N.K. Enterprises and Sri Nasir Khan.

punjab national bank Possession Notice (For Immovable Property). Punjab National Bank/ the Authorized Officer/s of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Table with 6 columns: Sr. No., Branch Name, Name of Account & Number, Name of Borrowers & Guarantors, Details of Mortgage Property, Demand Notice date. Includes details for MD Aslam and Sh Nek Momad.

SURAJ INDUSTRIES LTD. Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 33 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

LANDMARK PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED. 44th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING. Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of members of Landmark Property Development Company Limited.

AXIS BANK. Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Table with 4 columns: Account Number, Location / Details of the Immovable Property, Reserve Price, Earnest Money. Includes details for Plot No E-2(A) RIICO Industrial Area.

BENARES HOTELS LIMITED. Corporate Identity Number: L55101UP1971PLC003480. Registered Office: Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002.

NOTICE TO MEMBERS. Members of Benares Hotels Limited (the Company) are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013.

IEC EDUCATION LIMITED. Unaudited Financial Results for Quarter Ending on 30th June, 2020. Table with 5 columns: S. No., Particulars, For The Quarter Ended on 30.06.2020, For The Quarter Ended on 30.06.2019, As At 31.03.2020.

NOTICE. The above is an extract from the detailed format of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020.

DCM LIMITED. Regd. Office: Unit Nos. 2050 to 2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.

NOTICE (For the attention of Equity Shareholders of DCM Limited). Notice is hereby given that the 130th Annual General Meeting (AGM) of the Members of DCM Limited will be held on Friday, September 25, 2020 at 11:00 A.M.

NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED. Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

FORM NO. INC-25A. ADVERTISEMENT FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION.

FORM NO. INC-25A. ADVERTISEMENT FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION.

NOTICE. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013.

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD. Statement of Standalone Unaudited Financial Result for the Quarter Ended 30th June, 2020. Table with 5 columns: Particulars, Quarter Ended, Year ended.

Central Bank of India. MEGA e-AUCTION SALE NOTICE (Under SARFAESI Act 2002). REGIONAL OFFICE DELHI (NORTH) 1398, FIRST FLOOR, CHANDNI CHOWK, DELHI-110006.

INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT LIMITED. NOTICE OF THE 43rd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE.

International Data Management Limited. Notice of the 43rd Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure. In continuation of our newspaper notice published on August 14, 2020.

DESCRIPTION OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTIES. Table with 6 columns: S. No., Name of Branch, Name of the Account, Description of Secured Assets, Demand Notice Date & Amount Dues, Date & Type of Possession.

TERMS & CONDITIONS. 1. The EMD shall be payable through NEFT/ RTGS in the following Account: - CENTRAL BANK OF INDIA, Regional Office (North), Chandni Chowk, Delhi-110006.

NOTICE FOR STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002. The borrower/ guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of e-Auction.

FORM NO. INC-25A. ADVERTISEMENT FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION.

FORM NO. INC-25A. ADVERTISEMENT FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION.

NOTICE. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013.

NOTICE. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013.

NOTICE. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013.

NOTICE. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013.

NOTICE. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013.

NOTICE. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013.

NOTICE. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013.

नारी स्वास्थ्य! समस्याएँ अनेक बेजोड़ उपाय 'हेमपुष्पा'

अश्वगंधा, मुलेठी, मूसली, ज़िंक आदि युक्त
90 वर्षों से No.1 औषधि व टॉनिक



- ✓ कमर व पेटू में दर्द
- ✓ खून की कमी, कमजोरी
- ✓ हथेली व तलवों में जलन
- ✓ खून साफ़ करे, रूप निखार
- ✓ तनाव कम करे
- आदि में सहायक

इम्युनिटी बढ़ाए
सुरक्षित रखे

हेमपुष्पा

मिलती-जुलती पैकिंग व विज्ञापन से भ्रमित न हों, सर्वोत्तम हेमपुष्पा ही लें

असरदार और भरोसेमंद



*Source: Brand Research Report, IBC 2018

यूरिया किल्लत में 10 के खिलाफ मुकदमा

कार्रवाई

वाराणसी। वरिष्ठ संवाददाता

यूरिया की कालाबाजारी और किल्लत के मद्देनजर डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने जांच के बाद 10 उर्वरक विक्रेताओं की अनियमितताएं पकड़ी हैं। सभी के खिलाफ फर्टिलाइजर मूवमेन्ट आर्डर 1973 की धारा-3 व एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत सम्बंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इसके पूर्वजिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैप कार्यालय पर सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का सज्जान लेते हुए जिला कृषि अधिकारी एवं एआर कोआपरेटिव से यूरिया कि कमी नहीं होने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए, इस संबंध में पूछा। यूरिया की कालाबाजारी, अधिक दाम पर बेचने की शिकायतों तथा समितियों पर उपलब्धता न होने के आरोप में दोनों

इनके खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा

● सचिव महंत यादव, साधन सहकारी समिति उपकेन्द्र, फूलपुर ● रमेश सिंह, मेसर्स विकास बीज भण्डार, बेदउली ● धनु लाल, मेसर्स किसान फर्टिलाइजर एजेंसी, फूलपुरिया ● बचालाल यादव, साधन सहकारी समिति, छितीनी ● सुशील कुमार, मेसर्स फर्टिलाइजर एजेंसी, कपसेठी ● योगेश कुमार द्विवेदी, इफको कृषक सेवा केन्द्र, राजातालाब ● वीरेन्द्र कुमार जायसवाल, मेसर्स राज उर्वरक केन्द्र फूलपुर ● हरिनाथ पटेल, मेसर्स औद्योगिक उत्पादन एवम् विपणन सहकारी समिति लि., पूरेबरिया सेवापुरी ● सच्चिदानन्द पाण्डेय, औद्योगिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति लि. राजवाड़ी ● रमाकान्त त्रिपाठी, साधन सहकारी समिति, अमराखेरा, सरहरी, केशरीपुर सुसुवाही

अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

33 सहकारी समितियों के समय पर न खुलने पर कहा कि अतिरिक्त कर्मचारी लगाएँ। यदि जांच के समय कोई भी समिति बंद मिली तो संबंधित एडीओ (कोआपरेटिव) एवं एडीसीओ की जिम्मेदारी तय होगी। समितियों पर रोस्टरवार सूची चर्चा करने व लेखापालों की ड्यूटी लगाने को भी कहा। चेतावनी कि यूरिया की कालाबाजारी या अन्य कोई अनियमितता मिली तो कृषि एवं सहकारिता विभाग के अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों अधिकारियों की टीम गठित कर जांच करायी गयी थी जिसमें 21 लाइसेंसी दोषी पाये गये थे। इसमें से 4 का लाइसेंस निरस्त किया गया। डीएम ने एआर कोआपरेटिव एवं कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि एडीओ (सहकारिता), एडीसीओ एवं एडीओ (कृषि) की ड्यूटी समितित्वार (प्रशासन), उपनिदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, एआर कोआपरेटिव सहित अन्य अधिकारी रहे।

कमिश्नर से व्यापारी ने की नोटिस वापसी की मांग



कमिश्नरि सभागार में बुधवार को नोटिस वापस लेने के लिए ज्ञापन देते व्यापारी।

वाराणसी। कार्यालय संवाददाता

व्यापारियों ने कमिश्नर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत वापरल करने के बाद व्यापारी नेता को दी गई नोटिस वापस लेने की मांग की है। बुधवार को विभिन्न व्यापार मंडलों की ओर से कमिश्नर से यह मांग की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष शेषलाल गर्ग व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने अपर आयुक्त प्रशासन अजय कुमार सिंह को मांगपत्र सौंपा।

व्यापारी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री से व्यापारी नेता ने आम लोगों के हितों से जुड़ी शिकायत की है। आवाज उठाने पर पुरस्कार देने के बजाय दंड दिया जाएगा तो समाज और व्यापारी वर्ग में गलत संदेश जाएगा। व्यापारियों ने कहा कि यदि व्यापारी नेता पर नोटिस वापस नहीं ली गई तो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारी नेताओं ने कमिश्नर से कहा है कि जितना निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज

हो रहा है या हुआ है, ऐसे परिवारों से अधिकारी खुद जाकर निजी अस्पतालों की मनमानी जान सकते हैं। महामारी के समय में भी इन निजी अस्पतालों ने लूट-खसोट जारी रखी, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। साथ ही दुकानों के समय में बार-बार बदलाव से दिक्कतों को सामने रखा गया।

राकेश जैन को वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव सिंह बिल्लू, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव हाजी बदरुद्दीन, जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामकृष्ण श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रवि जायसवाल, वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अर्जीत सिंह बग्गा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर, काशी इलेक्ट्रिकल्स एंड डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय नारायण कपूर, नदेसर मोटर पार्ट्स के अध्यक्ष विनय गुप्ता आदि ने समर्थन दिया है।

भूमि विकास बैंक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन

पिंडवा। सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के लिए होने वाले चुनाव के क्रम में बुधवार की नामांकन तिथि के अंतिम दिन तहसील पिण्डरा में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा नेता अवधेश

कुमार सिंह ने पचां दाखिल किया। तहसील स्तर पर समितियों के प्रबन्धक के चुनाव के बाद जिला समिति का चुनाव होता है। मतदान व मतगणना एक सितंबर को होगा। लेकिन एक मात्र पचां दाखिल

होने से निर्वाचन निर्वाचन तय होना माना जा रहा है। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. जेपी दूबे, पवनसिंह, संजय राजभर, फौजदार शर्मा, रामाश्रय सिंह संतोष सिंह आदि मौजूद थे।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए

MultipreX

Advanced Formula For

Strong Immunity

कैप्सूल, सिरप, ओरल ड्रॉप्स एवं पाउडर

प्रतिरक्षा में सुधार, विटामिन और मिनरल की कमी को पूरा कर रोगों से बचाए

Required RSMs, ASMs & Sales Executives Call - 9896306767 or Email - corp@zeelab.co.in

बनारस होटल्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल5510।यूपी197।एलसी003480

पंजीकृत कार्यालय : नदेसर पैलेस कंपाउंड, वाराणसी - 221002, टेली. नं. : 0542-6660001

कॉर्पोरेट ऑफिस : ताज पैलेस, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली - 110021 टेली. : 011 6650 3549/3704

ईमेल : investorrelations@tajhotels.com वेबसाइट : www.benareshotelslimited.com

बनारस होटल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों (अधिनियम) और उनके साथ पढ़े जाने पर निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण तथा धन-वापसी) नियम 2016 (नियम) तथा उनके समय समय पर लागू किन्हीं भी वैधानिक रूपांतरणों अथवा पुनराधिनियमनों के अनुसार, कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह जिन शेयरों के लिए 7 क्रमिक वर्षों के लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण के डीमैट खाते में निर्धारित ढंग से अंतरित कर दे।

उपरोक्त नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुसरण करते हुए कंपनी संबंधित सदस्यों को, जिनके शेयरों को उपरोक्त नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना आवश्यक है, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत संदेश भी भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने ऐसे सदस्यों का और आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण किए जाने के अधीन शेयरों के पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.benareshotelslimited.com पर अपलोड कर दिया है। इसी के अनुरूप, सदस्यों से निवेदन किया जाता है आर्थिक वर्ष 2012-13 से संबंधित बिना चुकायी/बिना दावा की गयी देय लाभांश राशि का 15 सितंबर, 2020 के पहले तत्काल दावा करें ताकि ऐसे शेयरों को आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किये जाने से बचा जा सके।

सदस्यों को सभी संचार में निम्नलिखित विवरण देना होगा: 1) फोलियो नंबर या डीपी आईडी और ग्राहक आईडी 2) सदस्य का नाम 3) फोन नंबर 4) ईमेल आईडी। सदस्य स्वयं-प्रमाणित केवायसी दस्तावेज, जैसे पैन, रद किए गए चेक पत्र, साथ में पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रदान करें।

सदस्य यह ध्यान दे कि शेयर आईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाने के बाद भी, सदस्य आईपीएफ प्राधिकरण से शेयर / लाभांश वापस लेने का दावा आईपीएफ-5 के फार्म से कर सकते हैं। शेयर / लाभांश वापस लेने का दावा करने के लिए नियम और आवेदन पत्र आईपीएफ - 5, कंपनी की वेबसाइट www.benareshotelslimited.com और एमएसए की वेबसाइट www.iefp.gov.in पर उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 124(5) के अनुसार आर्थिक वर्ष 2011-12 तक का दावा न किया हुआ लाभांश आईपीएफ में अंतरित किया गया है। यदि कंपनी को संबंधित सदस्य(स्यो) से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी निर्धारित तारीख को ऐसे शेयरों को आईपीएफ में अंतरित करेगी।

किसी भी प्रश्न के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय से कंपनी की वेबसाइट www.benareshotelslimited.com/en-in/contact-us पर उपलब्ध पते पर कृपया निसकोच संपर्क करें।

संचालक मंडल के आदेशपर,

नई दिल्ली

वनिका महाजन
कंपनी सचिव

पुलाव में निकला कॉकरोच नदेसर का रेस्टोरेंट बंद



रेस्टोरेंट से मंगाए पुलाव में निकला कॉकरोच।

वाराणसी। नदेसर स्थित एक रेस्टोरेंट से पुलाव का पार्सल मंगाना एक ग्राहक को भारी पड़ गया। खाने में कॉकरोच देख खूब खतम हो गई। आनन-फानन में ग्राहक ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी। टीम ने पहुंचकर रेस्टोरेंट के रसोई की जांच कर नमूने लिये। इसके बाद अगले आदेश तक रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन वाराणसी के अभिहित अधिकारी संजय प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर एक ग्राहक ने नदेसर स्थित तन्दूर विला रेस्टोरेंट से पुलाव और अन्य खाद्य सामग्री मंगाई। खाना परोसे जाने पर पुलाव में कॉकरोच मिलने पर परिवार के लोग हतप्रभ रह गए।

ग्राहक ने तत्काल खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद टीम ने रेस्टोरेंट पर छापा मारकर पनीर का नमूना संग्रहित किया। कहा कि रेस्टोरेंट स्वामी ने जल्द सुधार नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई करेगी। बताया कि नमूने की रिपोर्ट आने के बाद ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम दफ्तर पर चर्चा किया ज्ञापन

गंगपुर। यूरिया खाद की किल्लत समेत किसानों की अन्य समस्या को लेकर बुधवार को कांग्रेसजनों ने एसडीएम राजातालाब के कार्यालय के बाहर ज्ञापन चर्चा कर दिया। पूर्व सांसद डा. राजेश मिश्र के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दोपहर में तहसील पहुंचा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष प्रजाशय शर्मा, डा. जितेन्द्र सेठ, अभय तिवारी आदि मौजूद थे।

खुशी का बावड़ा

बवासीर भगन्दर

से परेशान?

बहुमूल्य जड़ीबूटियों द्वारा निर्मित

टेकपाइल्स

टक्कोफार्म का

जल्द राहत के लिये दे आराम

कैप्सूल व मलहम

का प्रयोग साथ में करें

मो. +91 8601841515

अब 2 पैक जौली फैंट गो कैप्सूल की खरीद पर 1 पैक जौली तुलसी 51



FAT-GO
कैप्सूल और ऑयल
हर मैडिकल स्टोर पर उपलब्ध है ☎ 0161-520-1521

पावरलूम बुनकरों की एक से हड़ताल

वाराणसी। जनवरी 2020 से फ्लैट रेट पर बिजली न मिलने के विरोध में पावरलूम बुनकरों ने एक सितंबर से बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। उन्होंने फैसला किया है कि मांगें न माने जाने पर 15 सितंबर को बिजली कार्यालयों पर कनेक्शन काटने का सामूहिक आवेदन दिया जाएगा।

उप बुनकर सभा व वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ की ओर से लोहात में प्रदेश स्तरीय बैठक में बुधवार को ये फैसले हुए। यहां बिरादराना तंजीम बावनो, बाइसी, पांचों, बारहों और बत्तीसों के सरदार भी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में हाजी इफ्तेखार अहमद अंसारी ने कहा कि बुनकरों की कमजोर आर्थिक स्थिति व पलायन रोकने के लिए 14 जून 2006 को सपा सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने का निर्देश दिया था। इस मौके पर राकेशकांत राय, शैलेष सिंह आदि रहे।

निजीकरण से महंगी हो जाएगी बिजली

वाराणसी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक बुधवार को भिखारीपुर स्थित एमडी कार्यालय परिसर में हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने निजीकरण का पुरजोर विरोध किया। संयोजक चन्द्र शेखर चौंसिया ने बताया कि निजीकरण से बिजली महंगी होगी। शत्रुघ्न यादव ने बताया कि निजीकरण करने से गरीब किसान को महंगी बिजली मिलेगी। जवाहर विश्वकर्मा ने बताया कि निजीकरण पूरी तरह से जनता विरोधी है। मायाशंकर तिवारी ने बताया कि पूरे पूर्वांचल का एक-एक कर्मचारी अधिकारी केन्द्रीय संघर्ष समिति के निर्देश पर पहली सितंबर को अपने जनपद में शाम चार से पांच बजे तक प्रदर्शन करेगा। संजय भारती, एके श्रीवास्तव, आशीष सिंह, राजेंद्र सिंह, आरबी यादव, सुनील यादव, जगदीश पटेल, गुलाबचंद वीरेंद्र सिंह, अवधेश, अनिल ने विचार रखे।

Pears

पेयर्स गोल्डन ग्लो सिर्फ ₹20 में

वया आप जानते हैं कि आपके चेहरे की कुदरती नमी बनाए रखने के लिए किसरीन एक बेहतरीन तत्व माना जाता है? पेयर्स में है ग्रेड 1 साबुन के मुकामले 100% ज़्यादा किसरीन। ये आपके चेहरे को कोमल, मुलायम और निखरा हुआ बनाता है। पेयर्स का गोल्डन ग्लो अब सिर्फ ₹20 में।

₹20

60 ग्राम के लिए

बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक शक्ति

क्योंकि

हारना नहीं, जीतना है

संपूर्ण स्वदेशी
#VOCALFORLOCAL

“ केयर अश्वगंधा स्पाइस्ड ग्रीन टी ”

चल रही इस महामारी से खुद की रक्षा के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बेहद आवश्यक बन गया है, वही आयुर्वेद विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च युक्त हर्बल टी का सेवन करना जरूरी है। IIT DELHI के दो अलग अलग रिसर्च के मुताबिक अश्वगंधा और ग्रीन टी में संक्रमण से लड़ने की क्षमता है। केयर अश्वगंधा स्पाइस्ड ग्रीन टी में है उपर्युक्त सभी जड़ीबूटियों तथा अश्वगंधा, ग्रीन टी एवम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर जड़ीबूटियां जैसे कि लौंग, जायफल, इलायची के गुण, जो ना आप कि सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बल्कि नई उर्जा प्रदान करने में और टॉक्सिन बहार निकालने में मदद करती है।

ASM & SO required having experience in same field, Please mail resume: career@banlab.com

BAN LABS (P) LTD. | Email: consumer.care@banlab.com | Website: www.banlabs.com

Online Available: www.banlabsstore.com | [amazon](https://www.amazon.in) | [Flipkart](https://www.flipkart.com) | [tmall](https://www.tmall.com)

For Inquiry: 8299209813, 9328905856, 9328905715, Distributor: Kanpur, Farukhabad, Raebarely, Etawah: 8090532355, Jhansi, Banda: 8127482176, Varanasi: 8960522756, Azamgarh: 8574303707, Allahabad: 9695789217

**TRANSWARRANTY FINANCE LIMITED**

CIN: L6920MH1994PLC080220
 Regd. Office: 403, Regent Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400021.
 Tel. No: 40010900, Fax No: 40010999, Email: companysecretary@transwarranty.com, Web Site: www.transwarranty.com
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2020

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended 30.06.2020		Year Ended 31.03.2020		Quarter Ended 30.06.2020		Year Ended 31.03.2020	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations (net)	24.87	27.20	48.08	168.24	236.48	188.36	213.81	811.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(110.42)	(186.77)	(67.48)	(446.16)	(86.36)	(528.26)	(80.92)	(871.65)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(110.42)	(186.77)	(67.48)	(446.16)	(86.36)	(528.26)	(80.92)	(871.65)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(110.41)	(172.91)	(67.71)	(432.73)	(86.35)	(514.92)	(80.97)	(858.22)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(109.93)	(174.13)	(67.56)	(433.01)	(85.87)	(529.35)	(80.82)	(866.17)
6	Equity Share Capital	2,446.06	2,446.06	2,446.06	2,446.06	2,446.06	2,446.06	2,446.06	2,446.06
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(107.72)	(107.72)	325.28	(107.72)	(481.72)	(481.72)	181.12	(481.72)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)								
	Basic:	(0.45)	(0.71)	(0.28)	(1.77)	(0.40)	(1.45)	(0.02)	(2.69)
	Diluted:	(0.45)	(0.71)	(0.28)	(1.77)	(0.40)	(1.45)	(0.02)	(2.69)

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchanges at <http://www.bseindia.com> and <http://www.nseindia.com> and also on company's website <http://www.transwarranty.com>.

For Transwarranty Finance Limited

Sd/-

U Ramachandran

Director/ CFO

DIN - 00493707

Place : Mumbai
Date : 25.08.2020**RELIANCE CHEMOTEX INDUSTRIES LIMITED**

Regd Office: Post Box No. 73, Village Kanpur, Udaipur- 313 003 Phone: 0294-2490488
 Website: www.reliancechemotex.com CIN: L40102RJ1977PLC001994

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE, 2020

PARTICULAR	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
	30.06.2020 Unaudited	30.06.2019 Unaudited	31.03.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited
	Rs. In Lakh	Rs. In Lakh	Rs. In Lakh	Rs. In Lakh
Total Income from Operation (Net)	4077.34	7500.11	6956.40	30085.02
Net Profit / Loss for the period (before Tax and Exceptional Item)	(158.06)	152.66	299.11	1077.37
Net Profit / Loss for the period (before Tax and after Exceptional item)	(158.06)	152.66	299.11	1077.37
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(143.98)	348.99	155.09	933.11
Total Comprehensive Income (Including the Profit After Tax and Other Comprehensive Income)	(140.85)	347.97	170.88	945.85
Equity Share Capital	754.36	398.08	754.36	754.36
Reserves Excluding Revaluation Reserves as per Audited balance sheet of previous accounting year	-	-	-	9056.66
Earnings Per Share (after extra ordinary items) (of Rs. 10/- each)				
a) Basic	-1.91	8.77	2.06	14.68
b) Diluted	-1.91	8.77	2.06	14.68

1. The above financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on August 26, 2020.

2. The above is the extract of the detail financial Result format of Quarterly financial result filed with Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of quarterly result are available on the website of stock exchange i.e. www.bseindia.com and the website of the Company www.reliancechemotex.com.

For Reliance Chemotex Industries Limited

Sanjiv Shroff

Managing Director

Place : Mumbai
Date : 26/08/20**BENARES HOTELS LIMITED**

Corporate Identity Number: L55101UP1971PLC003480

Registered Office : Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002, Tel No. 0542-6660001

Corporate Office: Taj Palace, Sardar Patel Marg, New Delhi - 110021, Phone: 011 6650 3549/3704

Email: investorrelations@tajhotels.com Website: www.benareshotelslimited.com

NOTICE TO MEMBERS

Members of Benares Hotels Limited (the Company) are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force, the Company is required to transfer the shares for which dividend has not been claimed for 7 (seven) consecutive years to the demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner.

Adhering to the requirements set out in the Rules, the Company has already sent individual communications to the concerned Members at their latest available addresses whose shares are required to be transferred to demat account of IEPF Authority as per the aforesaid Rules for taking appropriate action. Further, the Company has uploaded on its website www.benareshotelslimited.com, full details of such Members and their shares which are liable for transfer to demat account of IEPF Authority.

Accordingly, the Members are requested to immediately claim the unpaid/unclaimed dividend amount due for the financial year 2012-13 and respond latest by September 15, 2020 to avoid such shares being transferred to demat account of IEPF Authority.

Members are required to provide following details in all communications: 1. Folio No. or DP ID and Client ID 2. Name of the Member 3. Contact No. 4. Email id. Also provide self-attested KYC documents of the Member, like PAN, cancelled cheque leaf along with a document as address proof.

Members may note that after the shares have been transferred to IEPF, they can claim the said shares from IEPF Authority by filing Form IEPF-5, as prescribed under the said Rules. The Rules and the application Form IEPF-5, for claiming back the shares/ dividend, are available on the website of the Company www.benareshotelslimited.com as well as website of MCA www.iepf.gov.in.

The unclaimed dividend for the financial year 2011-12 and prior to that has already been transferred to the IEPF, as required under Section 124(5) of the said Act.

In case the Company does not receive any response from the concerned Member(s), the above said shares will be transferred to IEPF at appropriate prescribed date.

Please feel free to contact the office of the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at the address available on the website of the Company www.benareshotelslimited.com/en-in/contact-us in case of any queries.

By order of the Board of Directors

VANIKA MAHAJAN

Company Secretary

New Delhi

**KDDL LIMITED**

(CIN : L33302HP1981PLC008123)

Regd. Office: Plot No. 3, Sector - III, Parwanoo, Distt. Solan - 173220 (H.P.)

Tel.: +91 172 2548223 / 24 Fax : +91 172 2548302

website: www.kddl.com ; email id: investor.complaints@kddl.com

ETHOS

TRUST WATER STUDIOS

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th June, 2020

(Rs. in Lakhs except earnings per share)

S. No.	Particulars (Refer notes below)	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 30 June 2020	Corresponding Quarter ended 30 June 2019	Year ended 31 March 2020	Quarter ended 30 June 2020	Corresponding Quarter ended 30 June 2019	Year ended 31 March 2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	2177	4913	18586	5861	15365	65895
2	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	(590)	415	1388	(2028)	151	512
3	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	(590)	415	1388	(2028)	151	512
4	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	(482)	288	913	(1559)	6	(195)
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising profit for the period(after tax) and other comprehensive income(after tax)]	(486)	277	863	(1551)	44	(112)
6	Paid-up equity share capital (Face value in Rs 10 per share)	1165	1163	1165	1165	1163	1165
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			15775			17402
8	Earnings per share (of Rs 10/- each) (not annualized):						
	(a) Basic (Rs)	(4.13)	2.47	7.84	(10.95)	0.22	(0.51)
	(b) Diluted (Rs)	(4.13)	2.47	7.84	(10.95)	0.22	(0.51)

NOTES:
 1. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 25 August 2020. The unaudited financial results for the current quarter have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company. The unmodified review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange.

2. The above is the extract of the detailed format of Unaudited quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the company's website www.kddl.com.

For and on the behalf of Board of Directors

Yashovardhan Saboo

(Chairman and Managing Director)

DIN-0012158

Place : Chandigarh
Date : 25/08/2020**SHYAM CENTURY FERROUS LIMITED**

CIN: L27310ML2011PLC008578

Regd. Office: Vill: Lumshnong, P.O.: Khalielhat, Dist.: East Jaintia Hills, Meghalaya - 793210

Corporate Office: Sanyam Towers, Unit No. 9B, 1st Floor, 3 Allipore Road, Kolkata - 700027

Tel: 03655 - 2782 15/16/18, Fax: 03655-278217

Email: investors@shyamcenturyferrous.com

Website: www.shyamcenturyferrous.com**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS**

NOTICE is hereby given that the NINTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of Shyam Century Ferrous Limited will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 04:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India. Members attending the AGM through VC/OVAM, will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice convening the 09th AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020, will be sent only by email to those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent ("the RTA"). The instructions for joining the AGM through VC/OVAM and the manner of taking part in the e-voting process will be provided along with the Notice and Annual Report. Members holding shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered may cast their votes through e-voting system, after registering their e-mail addresses by sending the scanned copy of the following documents to the Company at investors@shyamcenturyferrous.com or to the RTA, i.e. Maheshwari Datamatics Private Limited at mdpldc@yahoo.com :

1. A signed request letter mentioning their name, folio number/DP ID and client ID and number of shares held and complete postal address; Alternatively, members may use the "E-communication registration form" available on the website of the Company www.shyamcenturyferrous.com under the Investors section;

2. Self-attested copy of the PAN Card;

3. Self-attested copy of any document (such as Aadhar Card/Driving License/Voter ID Card/Passport/latest Electricity Bill/latest Telephone/Mobile Bill/Bank Passbook particulars) in support of the postal address of the Member as registered against their shareholding. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail addresses with the Depository Participants, are requested to register/update their e-mail addresses with their Depository Participants.

Members who hold shares in physical mode and who already have valid e-mail addresses registered with the Company/the RTA need not take any further action in this regard.

The Notice and Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2020 shall be available on the website of the Company viz., www.shyamcenturyferrous.com and also on the website of Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Shyam Century Ferrous Limited

Neha Agarwal

Company Secretary

Dated: 26th August, 2020

Place: Kolkata

STAR CEMENT LIMITED

CIN: L26942ML2001PLC006663

Regd. Office: Vill: Lumshnong, P.O.: Khalielhat, Dist.: East Jaintia Hills, Meghalaya - 793210

Corporate Office: 'Century House', 2nd floor, P 15/1, Taratala Road, Kolkata-700 088

Tel: 03655 - 2782 15/16/18, Fax: 03655-278217, Email: investors@starcement.co.in

Website: www.starcement.co.in**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS**

NOTICE is hereby given that the NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of Star Cement Limited will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India. Members attending the AGM through VC/OVAM, will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice convening the 19th AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020, will be sent only by email to those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent ("the RTA"). The instructions for joining the AGM through VC/OVAM and the manner of taking part in the e-voting process will be provided along with the Notice and Annual Report. Members holding shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered may cast their votes through e-voting system, after registering their e-mail addresses by sending the scanned copy of the following documents to the Company at investors@starcement.co.in or to the RTA, i.e. Maheshwari Datamatics Private Limited at mdpldc@yahoo.com :

1. A signed request letter mentioning their name, folio number/DP ID and client ID and number of shares held and complete postal address; Alternatively, members may use the "E-communication registration form" available on the website of the Company www.starcement.co.in under the Investors section;

2. Self-attested copy of the PAN Card;

3. Self-attested copy of any document (such as Aadhar Card/Driving License/Voter ID Card/Passport/latest Electricity Bill/latest Telephone/Mobile Bill/Bank Passbook particulars) in support of the postal address of the Member as registered against their shareholding. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail addresses with the Depository Participants, are requested to register/update their e-mail addresses with their Depository Participants.

Members who hold shares in physical mode and who already have valid e-mail addresses registered with the Company/the RTA need not take any further action in this regard.

The Notice and Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2020 shall be available on the website of the Company viz., www.starcement.co.in and also on the website of Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Star Cement Limited

Debabrata Thakurta

Company Secretary

Dated: 26th August, 2020

Place: Kolkata

ATUL AUTO LIMITED

CIN L54100GJ1986PLC016999

Reg. Office : Survey No. 86, Plot No. 1 to 4, 8-B, National Highway, Near Microwave Tower, Shapar (Veraval),

Dist. Rajkot, Gujarat 360 024. Website: www.atulauto.co.in E- Mail: info@atulauto.co.in**Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2020**

(Rs. in lacs except per share data)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30/06/2020 (Unaudited)	31/03/2020 (Audited)	30/06/2019 (Unaudited)	31/03/2020 (Audited)	30/06/2020 (Unaudited)	31/03/2020 (Audited)	30/06/2019 (Unaudited)	31/03/2020 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	2,655	11,259	14,774	62,534	2,655	11,259	14,774	62,534
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(882)	418	1,741	6,703	(883)	424	1,741	6,688
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(882)	418	1,741	6,703	(883)	424	1,741	6,688
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(677)	376	1,125	5,239	(635)	397	1,161	5,360
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(687)	364	1,085	5,193	(645)	385	1,121	5,314
6	Paid up Equity Share Capital	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097
7	Earning Per Share (Basic and Diluted but not annualised) (Face value of Rs. 5/-)	(3.09)	1.71	5.13	23.88	(2.89)	1.81	5.29	24.42

Notes:
 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results (Standalone and Consolidated) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results for the said Quarter end are available on Stock Exchanges Websites: